



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन 1946 (श10)

(सं0 पटना 956) पटना, वृहस्पतिवार, 3 अक्तूबर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

1 अक्तूबर 2024

सं0 3/एच0-01/2024-15764/सा०प्र०—बिहार राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि वर्ष 2025 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश रहेगा।

2. अनुसूची-1 में उल्लिखित सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष 2025 में राज्य सरकार के कर्मी संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम किन्हीं तीन अवकाशों का उपभोग कर सकेंगे।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-20-25/26/पर्व-1, दिनांक-08 जून 1957 सह-पठित निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऐक्ट, 1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश के रूप में परिभाषित रविवारों के अतिरिक्त—

- संलग्न अनुसूची-3 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर वर्ष 2025 में बिहार राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
- संलग्न अनुसूची-4 में उल्लिखित अवसर पर वर्ष 2025 में बिहार राज्य में वार्षिक बैंक लेखा बंदी का अवकाश रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## अनुसूची-1

बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए वर्ष 2025 में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित सामान्य अवकाश।

क्र. सं.	पर्व/अवसर/ अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	गुरु गोविन्द सिंह जन्म दिवस	1	06 जनवरी, 2025	पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी	सोमवार
2.	वसंत पंचमी	1	03 फरवरी, 2025	माघ शुक्ल पक्ष पंचमी	सोमवार
3.	संत रविदास जयन्ती	1	12 फरवरी, 2025	माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	बुधवार
4.	शब-ए-बरात	1	14 फरवरी, 2025	15 शाबान, 1446 हिजरी	शुक्रवार
5.	महाशिवरात्रि	1	26 फरवरी, 2025	फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी/ चतुर्दशी	बुधवार
6.	सम्राट अशोक अष्टमी	1	05 अप्रैल, 2025	चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी	शनिवार
7.	महावीर जयन्ती	1	10 अप्रैल, 2025	चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी	गुरुवार
8.	वीर कुंवर सिंह जयन्ती	1	23 अप्रैल, 2025	वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी	बुधवार
9.	जानकी नवमी	1	06 मई, 2025	वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी	मंगलवार
10.	बुद्ध पूर्णिमा	1	12 मई, 2025	वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	सोमवार
11.	कबीर जयन्ती	1	11 जून, 2025	ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	बुधवार
12.	चेहल्लुम	1	15 अगस्त, 2025	20 सफर, 1447 हिजरी	शुक्रवार
13.	हजरत मुहम्मद साहब जन्म दिवस	1	05 सितम्बर, 2025	12 रबीउल औवल 1447 हिजरी	शुक्रवार
14.	दुर्गा पूजा (सप्तमी)	1	29 सितम्बर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी	सोमवार
15.	चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज	1	23 अक्टूबर, 2025	कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया	गुरुवार
16.	गुरु गोविन्द सिंह जन्म दिवस	1	27 दिसम्बर, 2025	पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी	शनिवार

## टिप्पणी।-

- (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
- (2) राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में 6(छह) दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।
- (4) वर्ष 2025 में गुरु गोविन्द सिंह जी का 358वाँ एवं 359वाँ- दोनों जन्मदिवस पड़ने के कारण दोनों तिथियों को अवकाश घोषित किया गया है।

गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-2  
वर्ष 2025 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की सूची।  
(पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन का उपभोग किया जा सकता है।)

क्रमांक	पर्व/अवसर/ अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	नव वर्ष	1	01 जनवरी, 2025	पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया	बुधवार
2.	मकर संक्रांति	1	14 जनवरी, 2025	माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा	मंगलवार
3.	कर्पूरी ठाकुर जयंती	1	24 जनवरी, 2025	माघ कृष्ण पक्ष दशमी	शुक्रवार
4.	होलिकादाहन	1	13 मार्च, 2025	फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी/पूर्णिमा	गुरुवार
5.	रमजान का अंतिम जुमा	1	28 मार्च, 2025	27 रमजान 1446 हिजरी	शुक्रवार
6.	ईदुल फित्र (ईद)	1	01 अप्रैल, 2025	02 शौव्वाल, 1446 हिजरी	मंगलवार
7.	ईदुल-जोहा (बक्रईद)	1	08 जून, 2025	11 ज़िलहिज्जा, 1446 हिजरी	रविवार
8.	अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती	1	18 जून, 2025	आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी	बुधवार
9.	मुहर्रम	1	07 जुलाई, 2025	11 मोहर्रम, 1447 हिजरी	सोमवार
10.	अंतिम श्रावणी सोमवार	1	04 अगस्त, 2025	श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी	सोमवार
11.	रक्षा बंधन	1	09 अगस्त, 2025	श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	शनिवार
12.	हरितालिका तीज व्रत	1	26 अगस्त, 2025	भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया	मंगलवार
13.	अनन्त चतुर्दशी	1	06 सितम्बर, 2025	भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी	शनिवार
14.	जीवितपुत्रिका व्रत	1	14 सितम्बर, 2025	आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी	रविवार
15.	विश्वकर्मा पूजा	1	17 सितम्बर, 2025	आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी	बुधवार
16.	दुर्गा पूजा कलश-स्थापन	1	22 सितम्बर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा	सोमवार
17.	दुर्गा पूजा (एकादशी)	1	03 अक्टूबर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी	शुक्रवार
18.	जय प्रकाश नारायण जयंती	1	11 अक्टूबर, 2025	कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी	शनिवार
19.	श्री कृष्ण सिंह जयंती	1	21 अक्टूबर, 2025	कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या	मंगलवार
20.	छठ पूजा (खरना)	1	26 अक्टूबर, 2025	कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी	रविवार
21.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जयंती	1	03 दिसम्बर, 2025	मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी	बुधवार
22.	क्रिसमस ईव	1	24 दिसम्बर, 2025	पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी	बुधवार

**टिप्पणी-**

- (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
- (2) उपर्युक्त ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में अधिकतम तीन अवकाशों का उपभोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जा सकेगी।
- (3) उपर्युक्त ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों का उपभोग राज्य सरकार के सभी नियमित/संविदा नियोजित/वाह्य स्रोत से नियोजित कर्मियों द्वारा किया जा सकेगा।

गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## अनुसूची-3

वर्ष 2025 के लिए बिहार राज्य में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत घोषित सार्वजनिक अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/ अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	गणतंत्र दिवस	1	26 जनवरी, 2025	माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी	रविवार
2.	होली	2	14 मार्च, 2025 15 मार्च, 2025	फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा	शुक्रवार शनिवार
3.	बिहार दिवस	1	22 मार्च, 2025	चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी	शनिवार
4.	ईदु उल फितर (ईद)	1	31 मार्च, 2025	01 शैब्वाल, 1446 हिजरी	सोमवार
5.	राम नवमी	1	06 अप्रैल, 2025	चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी	रविवार
6.	भीम राव अम्बेदकर जन्म दिवस	1	14 अप्रैल, 2025	वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा/ द्वितीय	सोमवार
7.	गुड फ्राइडे	1	18 अप्रैल, 2025	चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी	शुक्रवार
8.	मई दिवस (श्रम दिवस)	1	01 मई, 2025	वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी	गुरुवार
9.	ईदुल-जोहा (बक्रईद)	1	07 जून, 2025	10 जिलहिज्जा, 1446 हिजरी	शनिवार
10.	मुहर्रम	1	06 जुलाई, 2025	10 मोहर्रम, 1446 हिजरी	रविवार
11.	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त, 2025	भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी	शुक्रवार
12.	श्री कृष्ण जन्माष्टमी	1	16 अगस्त, 2025	भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी	शनिवार
13.	दुर्गा पूजा	1	30 सितम्बर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी	मंगलवार
		1	01 अक्टूबर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी	बुधवार
		1	02 अक्टूबर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी	गुरुवार
14.	महात्मा गाँधी जयंती	1	02 अक्टूबर, 2025	आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी	गुरुवार
15.	दीपावली	1	22 अक्टूबर, 2025	कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या	बुधवार
16.	छठ पूजा	2	27 अक्टूबर, 2025 28 अक्टूबर, 2025	कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी	सोमवार मंगलवार
17.	क्रिसमस	1	25 दिसम्बर, 2025	पौस शुक्ल पक्ष पंचमी	गुरुवार

## टिप्पणी-

- (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
- (2) एन0आई0ऐक्ट के तहत उक्त घोषित अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वतः लागू होंगे।

गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## अनुसूची-4

वर्ष 2025 में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत वार्षिक बैंक लेखा बंदी अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/ अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	वार्षिक बैंक लेखा बंदी	1 दिन	1 अप्रैल, 2025	चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी	मंगलवार

गुफरान अहमद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 956+571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>